

दिनांक-22.01.2021

सुलतानपुर के थाना देहात पुलिस व संविर्लांस/स्वाट टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 25000 रुपये का इनामिया शातिर लुटेरा व हत्या की घटना में वांछित चल रहा अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता,

नाम-पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1- सत्यम तिवारी उर्फ शिवम तिवारी पुत्र उमाकान्त तिवारी निवासी गिरधर मिश्र का पुरवा थाना पीपरपुर, जनपद अमेठी गिरफ्तारी का दिनांक व समय - 22.01.2021 समय लगभग 08.300 बजे प्रातः

गिरफ्तारी का स्थान- बैजापुर रेलवे क्रासिंग

बरामदगी-

- 1- एक अदद तमन्चा देसी .315 बोर व एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस .315 बोरा
- 2- 220 रुपये,

जनपद सुलतानपुर में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर डॉ० अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर श्री विपुल श्रीवास्तव के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लम्भुआ श्री लालचन्द चौधरी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात श्री देवेन्द्र सिंह व प्रभारी संविर्लांस/ स्वाट श्री अजय प्रताप सिंह यादव के नेतृत्व में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण सम्बन्ध हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसके क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा घटित घटनाओं का साक्ष्य संकलन कर डिजिटल डेटा आदि मदद से अनावरण करने हेतु अथक प्रयास किया जा रहा था।

इस क्रम में दिनांक-22.01.2021 को थाना कोतवाली देहात पुलिस व संविर्लांस/ स्वाट टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से अभिसूचना को विकसित करते हुए हत्या की घटना में वांछित व शातिर लुटेरा अभियुक्त सत्यम तिवारी उर्फ शिवम तिवारी पुत्र उमाकान्त तिवारी निवासी गिरधर मिश्र का पुरवा थाना पीपरपुर, जनपद अमेठी को समय 08.30 बजे, बैजापुर रेलवे क्रासिंग से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा देशी .315 बोर व एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि 06.09.2020 को अपने साथियों के साथ मिलकर बैजापुर रेलवे क्रासिंग के पास से राजपाल पुत्र श्री राम अजौर निवासी चौहान का पुरवा थाना कोतवाली देहात से 12000 रुपये छीन लिया था। दिनांक-16.09.2020 को अपने साथियों के साथ मिलकर थाना गोसाईगंज अन्तर्गत उघडपुर चौराहे पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि आज फिर घटना करने की फिराक में निकला था कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त

सत्यम तिवारी उर्फ शिवम तिवारी का अपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0-479/20 धारा 147,148,149,307,302,504,506,120बी, भा0द0वि0 व 07 सीएलए एक्ट थाना गोसाईगंज, जनपद सुलतानपुर
- 2- मु0अ0सं0-442/20 धारा 392,411 थाना कोतवाली देहात जनपद सुलतानपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. प्र0नि0 देवेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर
2. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह प्रभारी सर्विलांस/स्वाट टीम सुल्तानपुर
3. उ0नि0 परमात्मा सिंह स्वाट टीम सुल्तानपुर
4. मु0आरक्षी पवनेश कुमार यादव सर्विलांस/स्वाट टीम सुल्तानपुर
5. मु0 आरक्षी अनुराग सिंह सर्विलांस टीम सुल्तानपुर
6. मु0 आरक्षी निर्भय सिंह स्वाट टीम सुल्तानपुर
7. मु0 आरक्षी समरजीत सरोज स्वाट टीम सुल्तानपुर
8. आरक्षी विकास सिंह स्वाट टीम सुल्तानपुर
9. आरक्षी तेजभान स्वाट टीम सुल्तानपुर
10. आरक्षी राहुल यादव स्वाट टीम सुल्तानपुर
11. आरक्षी संदीप शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर
12. आरक्षी अजय राजभर थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर